

प्रेस नोट

दिनांक 28.10.2022

सराहनीय कार्य थाना मुंशीगंज पुलिस

चोरी का खुलासा, 140 पाउच देशी शराब (वाह आरेंज ब्राण्ड) व शराब बिक्री के 2000/- रुपये नगद के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.10.2022 को उ0नि0 इन्द्रेश कुमार थाना मुंशीगंज मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्त 1.साहुल लोध पुत्र स्व0 रामदुलारे लोध नि0 लोधन का पुरवा मजरे किटियावां थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी व 2.राम धीरज मिश्रा पुत्र स्व0 संतराम मिश्रा नि0 कमलानगर मजरे किटियावां थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी को ग्राम किटियावां के पास से समय करीब 09:30 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त साहुल लोध के कब्जे से 70 पाउच देशी शराब वाह आरेंज ब्राण्ड, शराब बिक्री के 1000/- रूपया नगद व 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त धीरज मिश्रा के कब्जे से 70 पाउच देशी शराब वाह आरेंज ब्राण्ड व शराब बिक्री के 1000/- रुपये नगद बरामद हुआ ।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिनांक 25.10.2022 को कमला नगर के देशी सरकारी शराब की दुकान की छत पर सीमेन्ट चद्वर को तोड़कर व काटकर लगभग 09 पेटी शराब चोरी किया था । शराब के कुछ पाउच हम लोग बेंच दिये थे, बरामद रूपये शराब बिक्री के हैं व शेष 140 पाउच शराब उसी चोरी का है । थाना मुंशीगंज द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. साहुल लोध पुत्र स्व0 रामदुलारे लोध नि0 लोधन का पुरवा मजरे किटियावां थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 19 वर्ष ।
2. राम धीरज मिश्रा पुत्र स्व0 संतराम मिश्रा नि0 कमलानगर मजरे किटियावां थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 50 वर्ष ।

बरामदगी-

1. 140 पाउच देशी शराब (वाह आरेंज ब्राण्ड)
2. शराब बिक्री के 2000/- रुपये नगद
3. 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 214/22 धारा 457,380, 411 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 215/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी
3. मु0अ0सं0 216/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी
4. मु0अ0सं0 217/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 इन्द्रेश कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 विधान चन्द यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 अशफाक अहमद थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
4. का0 दिलीप कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
5. का0 अंकेश कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
6. का0 विकुल कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।